

# नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, उत्तराखंड में हो रही थी सप्लाई, मालिक हिरासत में

Edited by [Pradeep Yadav](#) | LipiUpdated: 6 Jul 2021, 11:32 am

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के जमौर इंडस्ट्रियल एरिया में बरेली एसटीएफ ने नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। नकली सीमेंट तैयार करने वाली फैक्ट्री उत्तराखंड में सीमेंट की सप्लाई कर रही थी। यूपी एसटीएफ की छापेमारी की भनक स्थानीय पुलिस तक को नहीं लगी।

## शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यूपी एसटीएफ की बरेली टीम ने छापेमारी करके नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। मौके पर सीमेंट की कई ब्रांडेड कंपनियों के खाली पैकेट मिले हैं, जिनमें नकली सीमेंट भर के बेची जा रही थी। एसटीएफ ने नकली सीमेंट से भरे दो ट्रक भी पकड़े हैं। खास बात यह रही कि एसटीएफ की छापेमारी की भनक लोकल पुलिस तक को नहीं लगी। फिलहाल मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

## ऋषिकेश सीमेंट कंपनी के नाम से चल रही थी फैक्ट्री

थाना कांट क्षेत्र के जमौर इंडस्ट्रियल एरिया में ऋषिकेश सीमेंट कंपनी के नाम से एक फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर सोमवार 5 जुलाई 2021 को शाम 7 बजे के करीब बरेली एसटीएफ की टीम ने गुपचुप तरीके से छापेमारी की, जिसकी भनक स्थानीय पुलिस तक को नहीं लगी। एसटीएफ टीम को मौके से सीमेंट की अलग-अलग ब्रांडेड कंपनियों के हजारों खाली पैकेट मिले हैं, जिनमें नकली सीमेंट भरकर बेचा जा रहा था।

## फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, पूछताछ जारी

यहां तैयार की गई सीमेंट को उत्तराखंड में ट्रक के जरिये भेजकर बेचा जा रहा था। एसटीएफ ने मौके से फैक्ट्री मालिक विक्रम तनेजा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की छापेमारी की सूचना के बाद मौके पर जिले के पुलिस के अफसर भी पहुंचे और जांच पड़ताल की।

एसपी सिटी संजय कुमार का कहना है कि जमीर इंडस्ट्रियल एरिया में बरेली एसटीएफ द्वारा नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पकड़े गए फैक्ट्री मालिक से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/shahjahanpur/stf-has-cough-fake-cement-factory-which-is-supplying-fake-ciment-to-uttrakhand/articleshow/84162109.cms>